

Reg. Office Address:

Room No. 144, C-Wing, Nirman Bhawan,
Maulana Azad Road, New Delhi 110001
CIN: L70101DL2005GOI132162
Website: www.hpil.co.in
Email: info@hpil.co.in, Tel: 011-23061325

HEMISPHERE PROPERTIES INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

हेमीस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

HPIL/BS/Stx/2021-22

Dated: 05.06.2021

To,
Manager,
Listing Department
BSE Limited,
P.J. Towers, Dalal Street
Mumbai: 400 001

To,
Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza", Plot No. C/1,G Block,
Bandra Complex, Bandra (E),
Mumbai -400 051

Script Code: 543242

Symbol: HEMIPROP

Subject: Newspaper Advertisement under Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,2015

In pursuant to Regulation 30 read with Schedule III and Regulation 47(3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached copies of the press clippings published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) newspapers on June 05, 2021 regarding notice of Board meeting to be held on Monday, June 14 ,2021.

This is for your information and records.

Thanking you,

For *Hemisphere Properties India Limited*



Lubna
Company Secretary & Compliance Officer

राजद्रोह कानून रद्द करने की मांग की एडीटर्स गिल्ड ने

खदान में जल स्तर बढ़ने से बचाव अभियान प्रभावित

नई दिल्ली, 4 जून (भाषा)।

'एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया' (ईजीआई) ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे पर उच्चतम न्यायालय के फैसला का शुक्रवार को स्वागत किया और 'कठोर' और 'पुराने' राजद्रोह कानूनों को रद्द करने की मांग की। उच्चतम न्यायालय ने एक सूटबूज कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कथित टिप्पणियों के लिए दुआ के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करते हुए गुरुवार को अपने फैसले में कहा था कि शीर्ष अदालत की 1962 की व्यवस्था के तहत राजद्रोह के मामलों में पत्रकारों को सुरक्षा का अधिकार है। गिल्ड ने एक बयान में कहा, 'ईजीआई स्वतंत्र मीडिया और हमारे लोकतंत्र पर राजद्रोह के कानूनों के कठोर और पर उच्चतम न्यायालय की चिंताओं पर संतोष जताता है।' इसमें कहा गया है, 'गिल्ड

विनोद दुआ मामले में शीर्ष न्यायालय के फैसले को सराहा।

इन कठोर और पुराने कानूनों को रद्द करने की मांग करती है जिनका किसी भी आधुनिक उदार लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। गिल्ड ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने दुआ के खिलाफ आपराधिक शिकायत को न केवल रद्द किया बल्कि राजद्रोह के मामलों से पत्रकारों की सुरक्षा करने की महत्ता पर भी जोर दिया।

गिल्ड ने कहा कि केदार नाथ सिंह प्रकरण में 1962 में सुनाए गए फैसले का संदर्भ और राजद्रोह के आरोपों से पत्रकारों को सुरक्षा देने की जरूरत स्वागत योग्य है लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों ने जिस तरीके से कानून लागू किए, उसके चलते मुकदमा चलाए जाने से पहले जेल में बंद कर दिया जाता है और उच्चतम न्यायालय को इसमें भी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।

शिलंग, 4 जून (भाषा)।

मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में एक खदान में पांच लोग अब भी फंसे हुए हैं। भारी बारिश के कारण जल स्तर एक मीटर और बढ़ जाने से बचाव अभियान में दिक्कत हो रही है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को इस बारे में बताया।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) ने गुरुवार को कहा था कि 152 मीटर गहरे गड्ढे में जलस्तर 46 मीटर तक पहुंच गया है। जिला उपायुक्त ई खारमलकी ने बताया कि खदान के सपाट के भीतर जलस्तर पहले की तुलना में एक मीटर बढ़ गया है। एनडीआरएफ, राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) और दमकल सेवा के 100 बचावकर्मी वहां बचाव अभियान में तैनात हैं और कम से कम 10 मीटर पानी घटने का इंतजार कर रहे हैं।

ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले के जिला मुख्यालय खिलेरोआट से करीब 20 किलोमीटर दूर उपप्लेग की खदान में रविवार को डायनामाइट विस्फोट के बाद पानी भर गया था। पिछले 24 घंटे में इलाके में लगातार बारिश के कारण 152 मीटर गहरे गड्ढे में जल स्तर बढ़ता गया। खारमलकी ने बताया कि फिलहाल एक पंप से पानी निकालने का काम जारी है।

चार टन अफीम डोडा चुरा जब्त, तस्कर गिरफ्तार

जयपुर, 4 जून (भाषा)।

राजस्थान पुलिस की सीआईडी (क्राइम ब्रांच) की टीम ने शुक्रवार को राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में चार टन से अधिक अफीम डोडा चुरा बरामद किया। यह चुरा एक ट्रक में गेहूं की फर्जी बिल्टी (रसीद) की आड़ में जोधपुर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सीआईडी क्राइम ब्रांच की नायक

परवार्थ तस्करों के विरुद्ध यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध) रवि प्रकाश ने बताया, "सीआईडी क्राइम ब्रांच ने यह कार्रवाई दोल नाका मंगलवाड़ पर की। डोडा चुरा गेहूं के कट्टों के नीचे छिपाकर चित्तौड़गढ़ से जोधपुर ले जाया जा रहा था। टीम द्वारा ट्रक की जांच की गई तो गेहूं के कट्टों के नीचे 215 कट्टों में छिपा कर ले जाया जा अवैध अफीम डोडा चुरा बरामद हुआ।"

अनिरुद्ध जगन्नाथ के सम्मान में राजकीय शोक की घोषणा

नई दिल्ली, 4 जून (भाषा)।

सरकार ने मॉरीशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ के सम्मान में शनिवार को एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। मॉरीशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ का गुरुवार को निधन हो गया था।

प्ररूप संख्या आईएनसी-26

(कम्पनी (निगम) निगम, 2014 के नियम 30 के अनुसार मंजूर)

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगम) निगम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के तहत

सोलोमन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

हेमिस्फेर प्रॉपर्टीज़ इंडिया लिमिटेड
CIN: L70101DL2005GO132162
पंजीकृत कार्यालय का पता: कमरा नंबर 144, सी.वि. निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली 110001
रोबो (सूचीबद्ध वित्तिय उद्देश्य के लिए) विनियमन, 2015 के विनियम 29 तथा ब(1) (ए) के अनुसार नंबर 57 के तहत, दिल्ली-110002 में स्थित सेवा गृह लिए विभिन्न वी.आर.के. के अंतर्गत 21 जून, 2021 को आयोजित किया जा रहा है और इसे 04-09-2021 से बंद कर दिया जाएगा। कार्रवाई के बारे में विवरण में सुविधा किया जाएगा।
www.hemisphere.com पर उपलब्ध है।
दिनांक: 5.6.2021
स्थान: नई दिल्ली
हेमिस्फेर प्रॉपर्टीज़ इंडिया लिमिटेड के लिए हस्ता./-
कंपनी सचिव एवं अनुपाल अधिकारी

शाखा के स्थान परिवर्तन की सूचना
आपको सूचित किया जाता है कि चॉट नंबर 38, फर्स्ट फ्लोर, और सायबर कैंप, विकास मार्ग, हस्तपुर, मेट्रो पिन नंबर 57 के समूह, दिल्ली-110002 में स्थित सेवा गृह लिए विभिन्न वी.आर.के. के अंतर्गत 21 जून, 2021 को आयोजित किया जा रहा है और इसे 04-09-2021 से बंद कर दिया जाएगा। कार्रवाई के बारे में विवरण में सुविधा किया जाएगा।
दिनांक: 5.6.2021
स्थान: नई दिल्ली
हेमिस्फेर प्रॉपर्टीज़ इंडिया लिमिटेड के लिए हस्ता./-
कंपनी सचिव एवं अनुपाल अधिकारी

Small Finance Bank
Registered Office: 301-306, 3rd Floor, ABHIJEET -V, Opp. Mayor's Bungalow, Law Garden Road, Mithakhali, Ahmedabad - 380006, Gujarat. www.fincarebank.com
LOAN AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON 'AS IS WHERE IS' BASIS
The below mentioned borrower/s have been issued notices to pay their outstanding amounts towards the loan against gold facilities availed from Fincare Small Finance Bank Ltd ("Bank"). Since the borrower/s has/have failed to repay his/his/their dues, we are constrained to conduct an auction of pledged gold items/articles as per below schedule.

Loan Account No	Name of the borrower	Auction Venue	Auction Date
20660000294280	ANKUSH DUA	BP NO.49, GROUND FLOOR,NEELAM BATA ROAD, NEAR GRANDDELIA HOTEL, NIT, FARIDABAD -AC NAGAR - 121001	10-06-2021
206600003011109	GHAN SHYAM	BP NO.49, GROUND FLOOR,NEELAM BATA ROAD, NEAR GRANDDELIA HOTEL, NIT, FARIDABAD -AC NAGAR - 121001	10-06-2021
206600004292687	MUKESH	BP NO.49, GROUND FLOOR,NEELAM BATA ROAD, NEAR GRANDDELIA HOTEL, NIT, FARIDABAD -AC NAGAR - 121001	10-06-2021
20660000301309	JATIN VERMA	GROUND FLOOR, SCO NO. 11 & 12, SECTOR-15, PART-II, NEAR HOTEL GALAXY, GURUGRAM - 122003	10-06-2021
20660000276684	KAPIL KUMAR	GROUND FLOOR, SCO NO. 11 & 12, SECTOR-15, PART-II, NEAR HOTEL GALAXY, GURUGRAM - 122003	10-06-2021
20660000306670	NARAIN DASS	GROUND FLOOR, SCO NO. 11 & 12, SECTOR-15, PART-II, NEAR HOTEL GALAXY, GURUGRAM - 122003	10-06-2021
20660000267221	RAJ SINGH	GROUND FLOOR, SCO NO. 11 & 12, SECTOR-15, PART-II, NEAR HOTEL GALAXY, GURUGRAM - 122003	10-06-2021
20660000498204	SUNIL KUMAR	GROUND FLOOR, SCO NO. 11 & 12, SECTOR-15, PART-II, NEAR HOTEL GALAXY, GURUGRAM - 122003	10-06-2021
20660000476258	VINAYKUMAR	GROUND FLOOR, SCO NO. 11 & 12, SECTOR-15, PART-II, NEAR HOTEL GALAXY, GURUGRAM - 122003	10-06-2021
20660000235378	VINOD KUMAR	GROUND FLOOR, SCO NO. 11 & 12, SECTOR-15, PART-II, NEAR HOTEL GALAXY, GURUGRAM - 122003	10-06-2021
20660000259447	YOGESH YADAV	GROUND FLOOR, SHOP NO.10, SEC-10-A, KHANDASIA ROAD, GURUGRAM - 122001	10-06-2021
20660000311560	DEEPAK BHATI	GROUND FLOOR, SHOP NO.10, SEC-10-A, KHANDASIA ROAD, GURUGRAM - 122001	10-06-2021
20660000454940	PARDEEP	GROUND FLOOR, SHOP NO.10, SEC-10-A, KHANDASIA ROAD, GURUGRAM - 122001	10-06-2021
20660000307578	POOJA DEVI	GROUND FLOOR, SHOP NO.10, SEC-10-A, KHANDASIA ROAD, GURUGRAM - 122001	10-06-2021
206600004096720	RAVI SHANKER	GROUND FLOOR, SHOP NO.10, SEC-10-A, KHANDASIA ROAD, GURUGRAM - 122001	10-06-2021
20660000239831	RAVI SINGH SISOOYA	GROUND FLOOR, SHOP NO.10, SEC-10-A, KHANDASIA ROAD, GURUGRAM - 122001	10-06-2021
20660000296746	SAVITRI	GROUND FLOOR, SHOP NO.10, SEC-10-A, KHANDASIA ROAD, GURUGRAM - 122001	10-06-2021

Note: The auction is subject to certain terms and conditions mentioned in the bid form, which is made available before the commencement of auction.

ADITYA BIRLA CAPITAL
PROTECTING INVESTING FINANCE ADVISING
आदित्य बिरला हाजर्सिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रेयॉन कम्पाउण्ड, वेरावल, गुजरात-362266
शाखा कार्यालय : डी-17, सेक्टर-3, नोएडा

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 13(2) (अधिनियम) के तहत मांग सूचना

5 जून, 2021

क्र.सं.	कर्जदार (ए) के नाम तथा पता (क)	संपत्ति का विवरण (ख)	ऋण राशि (रु.) (ग)	ऋण खाता सं. (घ)	ऋण राशि (रु.) (ङ)	युक्त की तिथि (च)	संपूर्ण तिथि (छ)
19.	1. जसवंत सिंह, पकान नं. 16, सेक्टर-15-ए, फरीदाबाद, हरियाणा, एकाईड नगर, फरीदाबाद, ए.ओ. फरीदाबाद, हरियाणा-121007 साथ ही : आर-104, प्रथम तल, टॉवर-आर, रिजॉट,सेक्टर-75, ग्राप रिजॉनपुर, फरीदाबाद, पाली, बी.05, फरीदाबाद, हरियाणा, भारत-121004 2. सैमर्स मलिक ट्रेडर्स, पॉस्ट सं. 87, सेक्टर-6, फरीदाबाद, हरियाणा, फरीदाबाद, सेक्टर 7 ए.ओ. फरीदाबाद, हरियाणा-121006 3. संजीव जसवंत सिंह, पकान नं. 16, सेक्टर-15-ए, फरीदाबाद, हरियाणा, एकाईड नगर, फरीदाबाद, ए.ओ. फरीदाबाद, हरियाणा-121007	संपत्ति अंश-104, प्रथम तल, टॉवर-आर, रिजॉट,सेक्टर-75, ग्राप रिजॉनपुर, फरीदाबाद, पाली, बी.05, फरीदाबाद, हरियाणा, भारत-121004 का सम्पूर्ण भाग	रु. 492,90,000/-	LNDELHL - 12170041111 तथा LNDELHL - 12170031308	रु. 4,988,377.00/- (रुपये उनचास लाख अठ्ठासी हजार तीन सौ सतरह पाय) 3 मई, 2021 तक बकाया पूर्यमान, एरिया (वित्तीय प्रभार राशि) तथा ब्याज से	27-मई-21	30-अप्रैल-21
20.	1. अली गुलशान, प.नं. 138, एन ब्लॉक, सुन्दर नगरी, नन्द नगरी, सुन्दर नगरी, ए.ओ. उत्तरी परिचयी दिल्ली, दिल्ली-110093 साथ ही : अंश ग्राउंडफ्लोर, छत के अधिकार राशि, प्लॉट सं. सुनी-3, प्लॉट सं. बी-1/147, ब्लॉक बी-1, ग्राप बरहामपुर (धौपुरा), परगना लोनी, डीएलएफ विहाड एक्सप्रेसवे-2, गाजियाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत-201001 2. रावनीता के.एम. प.नं. 138, एन ब्लॉक, सुन्दर नगरी, नन्द नगरी, सुन्दर नगरी, ए.ओ. उत्तरी परिचयी दिल्ली, दिल्ली-110093	संपत्ति अंश ग्राउंडफ्लोर, छत के अधिकार राशि, प्लॉट सं. सुनी-3, प्लॉट सं. बी-1/147, ब्लॉक बी-1, ग्राप बरहामपुर (धौपुरा), परगना लोनी, डीएलएफ विहाड एक्सप्रेसवे-2, गाजियाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत-201001 का सम्पूर्ण भाग	रु. 136,00,000/-	LNDEL0HL - 08180010646 तथा LNDEL0HL - 08180010644	रु. 1,124,517.00/- (रुपये ग्यारह लाख चौबीस हजार पांच सौ सतरह पाय) 3 मई, 2021 तक बकाया पूर्यमान, एरिया (वित्तीय प्रभार राशि) तथा ब्याज से	27-मई-21	30-अप्रैल-21
21.	1. अमजोत सिंह, पकान नं. 38, 99, मेरीनाटा हरी नगर, पाया पूरी कॉम्प्लेक्स-परिचयी दिल्ली, दिल्ली-110064 साथ ही : प्लॉट नं. 138, इंडेन सिटी, खेवर सं. 249, खलीनी नं. 253, खसारा नं. 972/1 (44), हदयार सं. 183, प्लॉट नं. 183, इंडेन सिटी, बरकपा खानपुर, तहसील खसारा, निहा ए.ए.ए. नगर, खसारा ए.ए.ओ. (रूपनगर), रूपनगर, पंजा						

Hemisphere Properties India Limited
 CIN: U70101DL2005G0132162
 Reg. Office Address: Room No. 144, C-Wing, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi 110001

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 and 47(1)(a) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulation 2015 meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, 14th June, 2021, inter-alia, to consider and take on record Audited Financial Statement for the quarter and year ended on 31st March, 2021. The information is also available on website of Company (www.hpi.co.in) and on the website of stock exchange (www.bseindia.com and www.nseindia.com).

For Hemisphere Properties India Limited Sd/-
Company Secretary & Compliance Officer

4th Floor, Rajendra Bhawan, Rajendra Place, New Delhi - 8
 Email: Sardilgh@hpi.co.in

POSSESSION NOTICE
 (for Immovable property)
 [See rule 8(1)]

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of the Bank of Baroda under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act) and exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Securitisation (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 02.08.2019 calling upon the borrower Mrs Geeta Devi & Mr. Jagdish Rao E-1132 Ground Floor, Sector 11 Rohini Delhi-85 and Mr. Rajesh and Mr. Satpal Rao House No. 74, Village- Kundli, Tehsil Karanda District Sangli to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 13,33,935/- as on 31.07.2019 (Rupees Thirteen Lakhs Fifty Three Thousand Nine Hundred and Ninety Five only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of Section 13 of the Act read with rule 3 of the Securitisation (Enforcement) Rules, 2002 on 11th day of June of the year 2021.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank of Baroda for an amount of Rs. 26,33,388.22/- as on 19.04.2021 (Rupees Twenty Six Lakhs Thirty Nine Thousand Three Hundred Eighty Eight and paise Twenty Two only) and interest thereon plus other cost, charges and expenses, less recovery if any.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of the availability, to redeem the said assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
 All parts and parcel of property consisting of the First Floor without roof terrace rights measuring 25.30 sq. meters each total area - 51.30 sq. mts situated at No. 46-47, H-1 Block, Sector-11 Rohini, Delhi-110085 Boundary (as per site) North East-Service Lane, North-West-Plot no. 43, South-East-Plot no. 45, South-West-Plot 20 f

Date: 02.06.2021 11:08:36 AM
 Authorised Officer, Bank of Baroda

SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION

Horticulture Department (HQ)
 E Block, 3rd Floor, Dr. S.P.M. Civic Centre, J.L. Nehru Marg, New Delhi-110002

NOTICE INVITING TENDER

Online Open Tenders are invited under single stage-Two Bid system from experienced and financially sound eligible Contractors/Firms/Companies as per Tender Nos. 2021-SDMC-786663, 2021-SDMC-786665, & 2021-SDMC-786666 issued by Horticulture Deptt. (HQ) vide No. DDH/HQ/SDMC/2021-22/D/170/NIT No - 2 Dt 03.06.2021 Tender Cost Rs. 1000/- Each. Estimated Amt. is upto Rs. 6.00 lacs for each work. Date of Download & Bid Submission is w.e.f. 05.06.2021 to 15.06.2021 upto 03.00PM Opening of Technical Bids 16.06.2021 at 03.30 PM. After getting themselves registered (If not registered earlier for e-tendering) Bidding Documents with detailed terms & conditions can be downloaded from the website: www.tenders.gov.in/procure/app/or visit SDMC website www.mcdonline.nic.in/SDMCPortal/Tenders/CRP-ETENDERS. For SDMC Online tendering the helpdesk Nos. are 011-23227413 & 011-23227414 or mail to MCD-ITHELPDESK@mcd.nic.in. All details of these Tenders, Revisions, Clarifications, Corrigendum, Addendum, Time Extension etc., if any, will be uploaded on SDMC website only and will not be published in newspaper(s) separately. Interested Bidders should regularly visit the website to keep themselves regularly updated in respect of these tenders.

Dy. Director (HORT) HQ,
 RO. No. 16/DP/VS/2020-21 011-23225334

GROVY INDIA LIMITED
 CIN: L74130DL1985PLC021532
 Registered office: 122, 1st Floor, Vinobapuri, Lajpat Nagar, New Delhi - 110024
 Email: info@grovyindia.com | Website: www.grovyindia.com | Tel. No. 011-46740000

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH, 2021

Sr. No.	Particulars	Quarter ending on		Corresponding Quarter ended on	Rs. in Lakhs	
		31.03.2021	Un-Audited		31.03.2020	Audited
1	Total Income from Operations	207.59	821.32	561.03	1455.58	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	0.80	125.88	-151.34	145.76	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.80	125.88	-151.34	145.76	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-1.00	125.88	-151.34	143.96	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	11.50	131.65	-155.55	169.34	
6	Equity Share Capital	251.44	251.44	251.44	251.44	
7	Reserves (including Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	808.28	
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)	-0.04	5.01	-6.02	5.73	

Notes:
 a) The above is an extract of the detailed Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and other Disclosure Requirements), Regulations, 2015. The detailed Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website, viz. www.bseindia.com and at website of the Company @ www.grovyindia.com under Investors Desk.
 b) The Above Audited Financial Results and Segment Results have been reviewed and recommended by the Audit Committee in their meeting held on 03.06.2021 and approved by the Board of Director at their meeting held on 03.06.2021

For Grovy India Limited Sd/-
 Nishit Jalan
 Director
 DIN: 02964239

IDFC
 IDFC MUTUAL FUND

Notice-cum-Addendum no. 17 of 2021

Notice-cum-Addendum to the Statement of Additional Information (SAI) of IDFC Mutual Fund (the Fund)

A. Retirement of Director on the Board of IDFC Asset Management Company Limited (the AMC):
 Investors are requested to note that Ms. Anita Ramachandran has ceased to be Director on Board of the AMC with effect from June 3, 2021, consequent to her retirement. Accordingly, any reference pertaining to Ms. Anita Ramachandran under section 'Details of AMC Directors' in SAI shall stand deleted.

B. Change in composition of Board of Directors of IDFC AMC Trustee Company Limited (Trustees to IDFC Mutual Fund)
 Investors are requested to note that Dr. Jaimini Bhagwati, Independent Director on Board of IDFC AMC Trustee Company Limited has been designated as Associate Director of IDFC AMC Trustee Company Limited with effect from May 25, 2021.

All the other provisions of the SAI of the Fund except as specifically modified herein above, read with the addenda issued from time to time, remain unchanged.

This addendum forms an integral part of the SAI of the Fund, read with the addenda issued from time to time.

Place : Mumbai
 Date : June 04, 2021

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

ICRA Limited
 Corporate Identity Number (CIN): L74999DL1991PLC042749
 Registered Office: B-710, Statesman House, 148, Barakhamba Road, New Delhi 110001
 Telephone No.: +91-11-23357940-45, Website: www.icra.in, Email ID: investors@icraindia.com

NOTICE
 (For transfer of equity shares of ICRA Limited ("the Company") to Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPF Authority"))

This Notice is published pursuant to the provisions of section 124(6) and other relevant provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), as amended from time to time. The Rules contain the provisions for transfer of Equity Shares of the Company to IEPF Authority in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more in a prescribed manner. Members may please note that the Company is required to transfer such shares corresponding to the dividend declared for the financial year 2013-14 in respect of which members have not claimed dividend for seven consecutive years from the said financial year to the IEPF Authority as per the Rules. Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has communicated individually vide letter dated June 3, 2021 to the concerned members whose equity share(s) is/are liable to be transferred to the IEPF Authority under the said Rules during the financial year 2021-22 for taking appropriate action(s). The Company has uploaded full details of the unclaimed dividend and the shares due for transfer to the IEPF Authority on its website at <https://www.icra.in/InvestorRelation/ShowInvestorCommunicationReport?Id=455&Title=Corporate%20Announcements&Report=ICRA>. The members are requested to refer to the Company's website to verify the details of unclaimed dividend and the shares liable to be transferred to the IEPF Authority.

In terms of the Rules, the due date of transfer of shares (in respect of dividend remain unclaimed for seven consecutive years) to the IEPF Authority shall be **September 19, 2021**. Further in terms of the Rules all benefits accruing on such shares viz. bonus shares, split, consolidation, fraction shares etc. except the rights issue shall also be credited to the IEPF Authority.

The concerned member(s), holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company will issue duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to the IEPF Authority as per the Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. In case of demat form, the Company shall transfer the shares by way of corporate action through the Depositories to the IEPF Authority. The members may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded as sufficient information and shall be deemed adequate notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to the Demat Account of the IEPF Authority pursuant to the Rules.

In case no valid claim in respect of equity shares is received from the members, the Company shall with the view to comply with the requirements set out in the Rules, transfer the shares to the IEPF Authority by the due date.

Members may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to the IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from the IEPF Authority after following the procedure prescribed in the Rules. In case the members have any queries on the subject matter and the Rules, they may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent and/or the Company at the below mentioned address.

Link Intime India Pvt. Ltd.
 Noble Heights - 1st Floor, Plot No. NH-2,
 LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110059
 Phone: +91 11 4141 0592 - 94; Fax: +91 11 4141 0591
 Email: delhi@linkintime.co.in

ICRA Limited
 Building No. 8, 2nd Floor, Tower A, DLF Cyber City,
 Phase II, Gurugram - 122002
 Phone: +91 124 4543000
 Email: investors@icraindia.com

For ICRA Limited
 (S. Shakhe Rahman)
 Company Secretary & Compliance Officer

SEARCH ON
PESB finds no suitable candidate to head ONGC

PRESS TRUST OF INDIA
 New Delhi, June 4

GOVERNMENT HEAD-HUNTER PESB on Friday did not find anyone suitable from nine candidates, including two serving IAS officers, to head India's largest oil and gas producer ONGC.

The Public Enterprise Selection Board (PESB) interviewed nine out of the 10 candidates who had applied for the post of chairman and managing director of Oil and Natural Gas Corporation (ONGC). "Keeping in view the strategic importance and vision for the company and its future, the Board did not recommend any candidate and decided to constitute a Search Committee," PESB said in a notice after interviews.

Those interviewed included senior bureaucrats Avinash Joshi and Niraj Verma. Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL) director-finance Pomila Jaspal and ONGC director for technology and field services Om Prakash Singh were the other prominent names who were interviewed, as per the PESB notice.

Both bureaucrats are from the 1994 batch of IAS officers belonging to the Assam-Meghalaya cadre. They are principal secretaries in the government of Assam, according to details available on the Department of Personnel and Training website.

Form No. INC-26
 (Pursuant to Rule 33 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)

Before the Central Government, Regional Director, Northern Region, New Delhi

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the matter of **SOLIMON CAPITAL PRIVATE LIMITED**
 (CIN: U69990DL2014PTC026963)
 having its Registered Office at 808, 8th Floor, Anaraj Building 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi - 110001

..... Applicant Company / Petitioner

NOTICE is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under Section 13(4) of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on Wednesday, 02nd June, 2021 to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Haryana".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post to his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of objection to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Payagaran Btawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its Registered Office at the address mentioned below: 808, 8th Floor, Anaraj Building 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001

For & on behalf of Applicant
SOLIMON CAPITAL PRIVATE LIMITED
 Sd/-
VIKAS GARG
 (DIRECTOR)
 Date : 05.06.2021
 Place : New Delhi DIN : 60099563

South Delhi Municipal Corporation

Horticulture Department (HQ)
 E Block, 3rd Floor, Dr. S.P.M. Civic Centre, J.L. Nehru Marg, New Delhi-110002

NOTICE INVITING TENDER

Online Open Tenders are invited under single stage-Two Bid system from experienced and financially sound eligible Contractors/Firms/Companies as per Tender Nos. 2021-SDMC-786663, 2021-SDMC-786665, & 2021-SDMC-786666 issued by Horticulture Deptt. (HQ) vide No. DDH/HQ/SDMC/2021-22/D/170/NIT No - 2 Dt 03.06.2021 Tender Cost Rs. 1000/- Each. Estimated Amt. is upto Rs. 6.00 lacs for each work. Date of Download & Bid Submission is w.e.f. 05.06.2021 to 15.06.2021 upto 03.00PM Opening of Technical Bids 16.06.2021 at 03.30 PM. After getting themselves registered (If not registered earlier for e-tendering) Bidding Documents with detailed terms & conditions can be downloaded from the website: www.tenders.gov.in/procure/app/or visit SDMC website www.mcdonline.nic.in/SDMCPortal/Tenders/CRP-ETENDERS. For SDMC Online tendering the helpdesk Nos. are 011-23227413 & 011-23227414 or mail to MCD-ITHELPDESK@mcd.nic.in. All details of these Tenders, Revisions, Clarifications, Corrigendum, Addendum, Time Extension etc., if any, will be uploaded on SDMC website only and will not be published in newspaper(s) separately. Interested Bidders should regularly visit the website to keep themselves regularly updated in respect of these tenders.

Dy. Director (HORT) HQ,
 RO. No. 16/DP/VS/2020-21 011-23225334

SEARCH ON
PESB finds no suitable candidate to head ONGC

PRESS TRUST OF INDIA
 New Delhi, June 4

GOVERNMENT HEAD-HUNTER PESB on Friday did not find anyone suitable from nine candidates, including two serving IAS officers, to head India's largest oil and gas producer ONGC.

The Public Enterprise Selection Board (PESB) interviewed nine out of the 10 candidates who had applied for the post of chairman and managing director of Oil and Natural Gas Corporation (ONGC). "Keeping in view the strategic importance and vision for the company and its future, the Board did not recommend any candidate and decided to constitute a Search Committee," PESB said in a notice after interviews.

Those interviewed included senior bureaucrats Avinash Joshi and Niraj Verma. Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL) director-finance Pomila Jaspal and ONGC director for technology and field services Om Prakash Singh were the other prominent names who were interviewed, as per the PESB notice.

Both bureaucrats are from the 1994 batch of IAS officers belonging to the Assam-Meghalaya cadre. They are principal secretaries in the government of Assam, according to details available on the Department of Personnel and Training website.



Others interviewed by PESB were ONGC executive directors Sandeep Gupta, Pankaj Kumar and Omkar Nath Gyani, ONGC additional director general Anand Gupta, and Container Corporation of India director-finance Manoj Kumar Dubey. Security Printing and Minting Corp of India director-finance Ajay Agarwal, who had applied for the job, did not appear for the interview.

This is the second time in one-and-a-half decade that a suitable candidate was not found from among those who had applied.

In August 2006, PESB chose RS Sharma to head the company but the Prime Minister's Office (PMO) in February 2017 vetoed his appointment as it wanted the selection process to be widened by inviting candidates from private sector.

In June 2007, PESB again selected Sharma and his candidature was this time endorsed by the Appointments Committee of Cabinet.

PESB on Friday conducted interviews to select a replacement for Shashi Shanker who retired after attaining superannuating age of 60 years at March-end this year.

While a replacement is often selected before the incumbent retires, PESB did not hold any interviews for almost seven months as its chairman wasn't appointed.

The government in April named Mallika Srinivasan, chairman and managing director of Tractors and Farm Equipment, as the new chairperson of PESB. She is the first person from the private sector to be appointed as the head of PESB. After Shanker retired, Subhash Kumar, director for finance and senior most director on ONGC board, was given the additional charge of chairman and managing director. Kumar, 59, will retire in December 2021.

BofA Securities picks up IndusInd Bank shares worth ₹364 cr

PRESS TRUST OF INDIA
 New Delhi, June 4

BOFA SECURITIES EUROPE SA on Friday picked up 36.18 lakh shares of IndusInd Bank for ₹364 crore through a market transaction.

The shares were offloaded by UBS Principal Capital Asia.

According to block deal data available with the BSE, BofA Securities Europe SA purchased a total of 36,18,000 shares of the private sector lender.

The shares were purchased at an average price of ₹1,006, valuing the transaction at ₹363.97 crore.

As of March 2021, BofA Securities Europe SA (ODI) held a 3.2% stake in IndusInd Bank, while UBS Principal Capital Asia owned 1.24% holding in the bank, shareholding data with the BSE showed.

Earlier in January, BofA Securities Europe SA bought 39.50 lakh shares of the bank at ₹928 per share. In November 2020, it had purchased 32.64 lakh shares of IndusInd Bank from Goldman Sachs (Singapore) Pte (ODI) at ₹678.10 per share.

IndusInd Bank settled at ₹1,009.25 apiece on the BSE on Friday, up 0.34% from the previous dose.

GPL stake divestment: Andhra govt sets up empowered panel of secys

THE ANDHRA PRADESH government on Friday constituted a six-member empowered committee of secretaries to determine the process of divesting the states 10.40% stake in Gangavaram Port Limited (GPL) even as it approved the merger of GPL with Adani Ports and SEZ (APSEZ).

In an order, chief secretary Aditya Nath Das said the state government accepted the transfer of 31.50% shares of Windi Lakeside Investment in GPL to APSEZ. He said the government also approved the definitive agreement between APSEZ and DVS Raju and family, promoter of GPL, for acquiring 58.10% of their shares. "The state government accepts the proposal of merger of GPL with APSEZ, with a condition that APSEZ shall set up a separate special purpose company to enter into a revised concession agreement on the same terms and conditions of the original concession agreement for the remaining period," the chief secretary said in the order.

—PTI

RBI's ₹15k-cr liquidity: Crisil says only large firms may benefit

RBI's ₹15k-cr liquidity: Crisil says only large firms may benefit

PRESS TRUST OF INDIA
 Mumbai, June 4

RATING AGENCY CRISIL on Friday said it feared risk aversion among banks may lead to only the large companies benefiting under the ₹15,000-crore on-tap liquidity window for contact-intensive sectors announced earlier in the day.

The Reserve Bank of India's (RBI) aggregate debt-eligibility thresholds for small enterprises to avail loan recasts takes the total number of entities able to access the facility to two-thirds of the rated mid-size portfolio, it said.

Says only large existing borrowers in contact-intensive sectors may benefit from this on-tap liquidity window as banks may have greater comfort with them

April and May 2021," Credit Access Gramen MD & CEO Udaya Kumar Hebbur told FE.

P Sathish, executive director, Sa-Dhan, said the RBI in April provided a special liquidity facility of ₹15,000 crore to Sidbi. "Providing a further special liquidity facility of ₹16,000 crore is more in terms of enabling Sidbi to finance more innovative types of activities," he said.

According to Satin Credit-care Network chairman & managing director HP Singh, the central bank's measures, such as the increase in limit of loans from ₹25 crore to ₹50 crore to small businesses and individuals under Resolution Framework 2.0, special liquidity facility to Sidbi and a separate liquidity window of ₹15,000 crore for contact intensive sectors, among others, will act as instruments spurring a rebound and strengthening India's momentum towards normalcy.

The RBI, however, has still not included the MFIs under Resolution Framework 2.0. MFN had earlier urged the RBI to provide a "restructuring window" for MFIs by including them under the Resolution Framework, which would help them mitigate the impact of Covid. According to the industry body, in current circumstances, it will be challenging for the small and medium MFIs to continue repayment to their lenders as microfinance clients are unable to pay during lockdown.

"We were expecting that at least some announcement will be there from RBI on providing a moratorium from lenders to MFIs or some kinds of restructuring facility. Without these kind of measures it will become a major problem for MFIs to provide further loans to their clients going forward. But it has not come. So, in a way we are slightly disappointed," Satish said.

Earlier in the day, RBI relaxed the eligibility criteria for the restructuring window offered under the Resolution Framework 2.0 to ₹50 crore. Earlier, only half of the rated companies were eligible for the package when the loan eligibility threshold was set at ₹25 crore. It also launched the ₹15,000-crore liquidity facility. The on-tap liquidity window for contact-intensive sectors such as hospitality, travel and tourism, and aviation ancillary services, which have borne the brunt of the second wave of the pandemic, is timely also, it said.

"There is a possibility that only large existing borrowers in contact-intensive sectors actually benefit from this on-tap liquidity window as banks may have greater comfort with them," the agency said.

'RBI's ₹16,000-cr special liquidity facility to Sidbi to help MFIs mitigate Covid challenges'

MITHUN DASGUPTA
 Kolkata, June 4

Industry bodies were, however, 'slightly disappointed' because RBI did not announce any measure on including microfinance institutions under the Resolution Framework 2.0

including microfinance institutions under the Resolution Framework 2.0.

"Over the last few quarters, large MFIs have been maintaining relatively higher liquidity on the balance sheet as a precautionary measure in a Covid-impacted environment. The special liquidity facility of Sidbi will further provide additional support to MFIs in general, but particularly to small MFIs to manage their fixed obligations amidst disruption in collections on account of lockdowns during

A.F. ENTERPRISES LIMITED
 CIN: L18100DL1983PLC016354
 Regd. Office: D5M-334, DLF Towers, Shivaji Marg, New Moti Nagar, Delhi-110015
 Corp. Office: Plot No. 8, Sector-5, Mathura Road, Ballabgarh, Faridabad, Haryana-121006
 Email: info@afenterprises.com | Tel: +91 7065219999
 Website: www.afenterprisesindia.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014: Secretarial Standard - I issued by the Institute of Company Secretaries of India ("ICSI") on General Meetings, the notice together with the postal ballot form seeking consent of members through postal ballot, including voting by electronic mode (e-voting), has been physically dispatched/sent by email to the members whose names appear in the Register of Members as on the Cut-Off Date i.e. Friday, May 28, 2021 for obtaining the approval of the Shareholders in relation to the below mentioned resolution:-

Special resolution:

- To consider and approve the change in designation of Director, Mr. Santosh Kumar Kushawaha to Managing Director of the Company and to fix remuneration of Rs. 72,00,000/- p.a. to Mr. Santosh Kumar Kushawaha according to Section 197, 198, 203 and Schedule V of the Companies Act, 2013 and any amendments thereof subject to necessary approvals from shareholders of the Company.
- To consider and approve the Remuneration of Mr. Sahil Arora, Director of the Company up to Rs. 30,00,000/- p.a (Thirty Lakh Only) and according to Section 188, 197, 198 and Schedule V of the Companies Act, 2013 and any amendments thereof subject to necessary approvals of the shareholders of the Company.
- To consider and approve the Remuneration of Ms. Shagun Ajmani, Director of the Company up to Rs. 30,00,000/- p.a (Thirty Lakh Only) and according to Section 188, 197, 198 and Schedule V of the Companies Act, 2013 and any amendments thereof subject to necessary approvals of the shareholders of the Company.
- To issue and allotment of 6,00,000 (Six Lakhs) sweat equity share, at a price of Rs. 18/- (Rupees Eighteen only) per sweat equity share aggregating to Rs. 1,08,00,000/- (Rupees One Crore Eight Lakhs only) consideration other than cash.
- To issue and allotment of 40,00,000 convertible warrants through preferential issue at a issue price of Rs. 18 (face value Rs. 10/- including Rs. 8/- premium per warrant) aggregating to Rs. 7,20,00,000/- The said offer price is in accordance with Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018

The Company has signed an agreement with Skyline Financial Services Private Limited for facilitating e-voting to enable the shareholders to cast their votes electronically pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 through e-voting facility. However, e-voting is optional.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Sumit Bajaj, Company Secretary in whole time practice (Membership No. ACS 45042, C.P. No. 23948, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot in a fair and transparent manner. The result of Postal Ballot shall be announced by the Chairperson or by any person authorized by the Chairperson or in his/her absence by any other person as authorised by the Board of Directors, on Monday 05th July, 2021 and the results shall be placed on the website of the Company i.e. www.afenterprisesindia.com and simultaneously will be communicated to the Stock Exchanges, where the securities of the Company are listed.

Members who have any queries/grievances connected with the voting by postal ballot papers by e-mail and who wish to vote through physical postal ballot form may download the Postal Ballot form from the <https://afenterprisesindia.com/investors-info-link>.

The voting rights of the equity shareholders shall be reckoned on the equity shares held by them as on Friday, May 28, 2021 being the Cut-Off date. A person who is not a member on cut-off date should treat this notice for information purpose only. The duly filled in and signed duplicate postal ballot form should also reach the Scrutinizer not later than the date specified above.

Members who have any queries/grievances connected with the voting by postal ballot including e-voting can contact at info.afenterprises@gmail.com or can contact Mr. Sumit Bajaj, Scrutinizer Practising Company Secretary A F Enterprises Limited Plot No. 8, Sector-5, Mathura Road, Ballabgarh, Faridabad, Haryana-121006 Tel: +91 7065219999 website: www.afenterprisesindia.com

For A F ENTERPRISES LIMITED
PAYAL SACHDEVA
 Company Secretary
 A56706

Date: June 4, 2021
 Place: Faridabad

Maha CM launches ₹4.6Lcr annual priority sector credit plan

FE BUREAU
 Pune, June 4

which is the highest ever in the last five years, according to the statement issued here.

The government advised banks in the state to continue more finance under crop loan disbursement during ongoing kharif 2021 season and achieve the season targets by the end of June 2021.

The CM advised member banks to improve credit disbursement under agriculture sector and also support all government-sponsored schemes, including SHGs.

The forum was also guided by Ajit Pawar, deputy chief minister, Dadaji Bhuse, agriculture minister, Balasaheb Patil, cooperation minister and Dr Vishwaajit Kadam, minister of state for agriculture and cooperation.

The state government has set the annual credit lending target by banks of ₹1.19 lakh crore for the agriculture sector in the current financial year. Of this, ₹60,860 crore is set for the crop loans during the kharif and rabi seasons.

Banks in the state have disbursed crop loans worth ₹47,972 crores during FY21,

MAHARASHTRA CHIEF MINISTER Uddhav Thackeray launched the state annual priority sector credit plan worth ₹4,60,881 crore and an overall annual credit plan of ₹1,19,779 crore at the quarterly State Level Bankers Committee (SBLC) meeting of Maharashtra.

The state government has set the annual credit lending target by banks of ₹1.19 lakh crore for the agriculture sector in the current financial year. Of this, ₹60,860 crore is set for the crop loans during the kharif and rabi seasons.

Banks in the state have disbursed crop loans worth ₹47,972 crores during FY21,

Sula's market share rises 10% despite pandemic on home consumption boost

NANDA KASABE
 Pune, June 4

THE PANDEMIC has been tough for most discretionary consumer businesses, but Sula Vineyards has managed to increase its market share during the period to 70% from 60% a year ago.

Rajeev Samant, founder CEO, Sula Vineyards, pointed out that while it has been a horrible experience, the pandemic has also been an opportunity to do things differently.

"We worked on hospitality while not increasing the cost base and improving experience for the customer. And I was also there for the entire 2020 vintage harvest, something that I have not done in a long time," he said. "Sula has come out of the pandemic much stronger. Now, we have a slightly pared down company in terms of manpower and operations. We cut down the contract labour from 60-70 people per day to 20, especially since many had returned to their villages," he added.

"Tourism is going to continue to be depressed, business travel is going to take at least 2 years to get back to normal and institutional sales are not coming back soon. But there has been a massive shift to home consumption," Samant said.

Sula now has a market share of 70% of retail wine sales, he said, adding it has always focused on the consumer. Sula has eliminated all marketing spends and focused only on digital, he added.